



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3104]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 7, 2017/कार्तिक 16, 1939

No. 3104]

NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 7, 2017/KARTIKA 16, 1939

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण

आदेश

नई दिल्ली, 16 अक्तूबर, 2017

का.आ. 3539(अ).—जैसा कि वेदांता लिमिटेड, आवेदक, जिसका पंजीकृत कार्यालय: 1 तल, 'सी' विंग, यूनिट 103, कॉरपोरेट एवेन्यू, अतुल परियोजनाएं, चाकाला, अंधेरी (पूर्व), मुंबई 400093, महाराष्ट्र, भारत, के पते पर स्थित है, ने "वेदांता लिमिटेड (पूर्व में सेसा स्टरलाइट लिमिटेड/स्टरलाइट एनर्जी लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) के निर्माण परियोजनाओं के दायरे में समर्पित ट्रांसमिशन लाइन का निर्माण" के अंतर्गत-400 केवी वेदांता (पूर्व में सेसा स्टरलाइट लिमिटेड/स्टरलाइट एनर्जी लिमिटेड)—सुंदरगढ़/झारसुगुडा पूर्लिंग स्टेशन (पीजीसीआईएल) डी/सी लाइन के निर्माण हेतु विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा-164 के तहत अनुमोदन हेतु आवेदन किया है।

और जैसा कि भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय ने अपने पत्र सं. 11/2/2010-PG दिनांक 31.01.2014 द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा-68 की उपधारा (i) के तहत वेदांता लिमिटेड, आवेदक, जिसका पंजीकृत कार्यालय: 1 तल, 'सी' विंग, यूनिट 103, कॉरपोरेट एवेन्यू, अतुल परियोजनाएं, चाकाला, अंधेरी (पूर्व), मुंबई 400093, महाराष्ट्र, भारत के पते पर स्थित है, ने "वेदांता लिमिटेड (पूर्व में सेसा स्टरलाइट लिमिटेड/स्टरलाइट एनर्जी लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) के निर्माण परियोजनाओं के दायरे में समर्पित ट्रांसमिशन लाइन का निर्माण" के अंतर्गत 400 केवी वेदांता (पूर्व में सेसा स्टरलाइट लिमिटेड/स्टरलाइट एनर्जी लिमिटेड)—सुंदरगढ़/झारसुगुडा पूर्लिंग स्टेशन (पीजीसीआईएल) डी/सी लाइन के निर्माण हेतु पूर्व अनुमोदन प्रदान किया था।

और जैसा कि आवेदक ने अब विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा-164 के अंतर्गत उसे समस्त शक्तियां प्रदान किए जाने का आग्रह किया है जो सरकार द्वारा स्थापित या अनुरक्षित टेलीग्राफ के प्रयोजन से या कार्यों हेतु इस प्रकार स्थापित या अनुरक्षित की जाने वाली टेलीग्राफ लाइनें और पोस्ट स्थापित करने के संदर्भ में भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के तहत टेलीग्राफ प्राधिकरण के पास हैं।

इस योजना के अंतर्गत शामिल पारेषण लाइनें, निम्न गांवों, तहसीलों, तालुकों, मंडलों, प्रखंडों, कस्बों और शहरों के अंदर से, ऊपर से, पास से और बीच से गुजरेंगी।

सं.	गावों का नाम	तेहसील	जिला
1.	केनपाली, माहुलपाली, कुर्गा, केपासे, किरिप्सिरा, सुरुडा, खामाबहल, जमुनाधिपा	टांगरपलि	सुंदरगढ़
2.	तेलेंगापाली, पोदबहल, कुंदुकेला, कइंतरा, देउली, भस्मा, कइंसरा	सुंदरगढ़	सुंदरगढ़

इसलिए, अब, सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, भारत सरकार, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत, वेदांता लिमिटेड को वे सभी शक्तियां प्रदान करता है जो विद्युत के पारेषण हेतु ऊपर उल्लिखित अंतरज्यीय पारेषण लाइन लगाने के लिए निम्नलिखित निबंधनों एवं शर्तों के अधीन भारत सरकार द्वारा स्थापित अथवा अनुरक्षित या इस प्रकार स्थापित अथवा अनुरक्षित किए जाने वाले टेलीग्राफ के उद्देश्यों हेतु टेलीग्राफ लाइनें लगाने और खंभे लगाने के संबंध में भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के अंतर्गत टेलीग्राफ प्राधिकरण के पास होती है, अर्थात :—

- उक्त अनुमोदन 25 वर्ष के लिए दिया जा रहा है।
- प्रस्तावित लाइन संस्थापित करने से पूर्व आवेदक को संबंधित प्राधिकारियों अर्थात् स्थानीय निकायों, रेलवे, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग इत्यादि से सहमति प्राप्त करनी होगी।
- आवेदक को पारेषण, प्रचालन एवं अनुरक्षण, खुली पट्टा आदि के संदर्भ में विद्युत अधिनियम 2003 के अंतर्गत निर्दिष्ट उपयुक्त कमीशन विनियमों/संहिताओं का पालन करना होगा।
- आवेदक को वेदांता लिमिटेड की "वेदांता लिमिटेड (पूर्व में सेसा स्टरलाइट लिमिटेड/स्टरलाइट एनर्जी लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) के निर्माण परियोजनाओं के दायरे में समर्पित ट्रांसमिशन लाइन का निर्माण" के निर्माण का दायित्व सौंपा जाता है। कार्य का विवरण भारत के राजपत्र दिनांक: 15.10.2016-21.10.2016 में प्रकाशित हैं।
- आवेदक, संबंधित राज्यों/केंद्र सरकार के मुख्य विद्युत निरीक्षक के अनुमोदनोपरांत लाइनों का प्रचालन करेगा।
- यह अनुमोदन आवेदक द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों की अपेक्षाओं का अनुपालन किए जाने के बर्त है।

[फा.सं. सीईए/पीएस/पीएसपीए-2/164/ईआर/वेदांता-सुंदरगढ़/1345]

पी. सी. कुरील, सचिव

CENTRAL ELECTRICITY AUTHORITY

ORDER

New Delhi, the 16th October, 2017

S.O. 3539(E).—Whereas **M/s Vedanta Limited**, the applicant with its Registered Office at Vedanta Limited, 1st Floor, 'C' wing, Unit 103, Corporate Avenue, Atul Projects, Chakala, Andheri (East), Mumbai 400093, Maharashtra, India., has applied for grant of authorization under Section 164 of the Electricity Act, 2003 *vide* its letters under reference for the transmission scheme for "**Construction of Dedicated Transmission Line in the scope of Generation Projects Development of M/s Vedanta Limited (formerly known as Sesa Sterlite Limited / Sterlite Energy Limited)**". Works covered under the scheme: 400kV Vedanta (formerly known as Sesa Sterlite Limited/Sterlite Energy Limited—Sundargarh/Jharsuguda pooling station (PGCIL) D/C line.

And whereas Government of India, Ministry of power *vide* letter no. 11/2/2010-PG dated 31.01.2014 had granted prior approval under sub-section (i) of section 68 of the Electricity Act, 2003 for "**Construction of Dedicated Transmission Line in the scope of Generation Projects Development of M/s Vedanta Limited (formerly known as**

Sesa Sterlite Limited/Sterlite Energy Limited)". Works covered under the scheme: 400kV Vedanta (formerly known as Sesa Sterlite Limited/Sterlite Energy Limited)—Sundargarh/Jharsuguda pooling station (PGCIL) D/C line.

And whereas the applicant has now requested to confer upon him all the powers under section 164 of the Electricity Act, 2003 which the telegraph authority possess under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to the placing of telegraph lines and posts for the purpose of a telegraph established or maintained by the Government or to be so established or maintained for the works.

The transmission line covered under the scheme will pass through, over, around, and between the following villages, tehsils, talukas, mandals, blocks, towns and cities:—

S. No.	Name of Villages	Tehsil	District
1.	Kenapalli, Mahulapalli, Kurga, Kepase, Kiripsira, Suruda, Khamarbahal, Jamunadhipa	Tangarpali	Sundargarh
2.	Telengapali, Podabahal, Kundukela, Kaintara, Deuli, Bhasma, Kainsara	Sundargarh	Sundargarh

Now, therefore, after careful consideration, Central Electricity Authority, Government of India, confers, under section 164 of the Electricity Act, 2003, all the powers on M/s Vedanta Limited which the telegraph authority possess under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to placing of telegraph lines and posts for the purposes of a telegraph established or maintained by the Government or to be established or maintained subject to following terms and conditions for installing the above mentioned interstate transmission line for inter-state transmission of electricity, namely:—

- (i) The approval is granted for 25 years;
- (ii) The Applicant shall have to seek the consent of the concerned authorities i.e. local bodies, Railways, National Highways, State Highways etc. before erection of proposed line.
- (iii) The Applicant shall have to follow regulations/codes of the Appropriate Commission regarding transmission, O&M, open access etc framed under Electricity Act, 2003.
- (iv) The Applicant has been entrusted with the responsibility of **"Construction of Dedicated Transmission Line in the scope of Generation Projects Development of M/s Vedanta Limited (formerly known as Sesa Sterlite Limited/Sterlite Energy Limited)"**. Works covered under the scheme: 400kV Vedanta (formerly known as Sesa Sterlite Limited /Sterlite Energy Limited)—Sundargarh/Jharsuguda pooling station (PGCIL) D/C line. The details of the work are published in the Gazette of India dated October 15-October 21, 2016.
- (v) The Applicant shall operate the lines after approval of Chief Electrical Inspector of respective states/Central Government.
- (vi) The approval is subject to compliance by the Applicant of the requirement of the provisions of the Electricity Act, 2003 and the rules made thereunder.

[F. No. CEA/PS/PSPA-2/164/ER/Vedanta-Sundargarh/1345]

P.C. KUREEL, Secy.